## Delton Gables Limited

Regd office: 'Delton House, 4801, Bharat Ram Road 24, Darya Ganj, New Delhi - 110002 (INDIA) Phone: 91-11-23273907

E-mail: dcl@deltoncables.com, Website: www.deltoncables.com

CIN: L31300DL 1964PL C004255 AN ISO 9001-2008 COMPANY

To, **November 13, 2024** 

#### **BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

BSE Scrip Code: 504240

Sub: Submission of Copies of published Un-audited Financial Results for the quarter & half-year ended September 30, 2024

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby inform you that the Company has published the Un-audited Financial Results for the quarter and half-year ended September 30, 2024, in the following Newspapers on November 13, 2024:

- a. Mint (English)
- b. Haribhoomi (Hindi)

A copy of the newspaper advertisement is enclosed herewith. Kindly take the same on record.

Thanking you, Yours faithfully

For Delton Cables Limited

Vivek Gupta **Managing Director** DIN: 00035916

Encl: as above

The minister,

however, did not

elaborate on the

security concerns

the government

has raised with

the American firm





# Yuvraj changes investment gear

mansi.verma@livemint.com MUMBAI

ike in cricket, Yuvraj Singh has seen setbacks in his investment journey as well. From helping India lift the 2011 World Cup with his all-round consistency, to coming down with a shattering rare germ cell cancer between his lungs, the iconic cricketer has seen it all. Singh didn't know where his cricket career was headed when he was left out of the national team in 2013. "I didn't know where my career was going, so I thought about what I could do with the money I had earned from cricket," Singh told *Mint* in an interview. From this depth of despondency

was born YouWeCan Ventures in 2015, his investment vehicle that has since backed as many as 12 startups. His bet on healthcare marketplace Healthians paid off handsomely, returning 100x, but some others

failed spectacularly, too. Wiser in his entrepreneurial journey, Singh says that he will now take code to re more calculated risks.

On 12 November, Singh embarked on this new approach by launching Twiddles, a healthy snacking brand, where he will serve as co-founder.

Singh will hold a double-digit minority share in the company. Alfinity Studios will hold a majority stake in Twiddles, while the rest would be held by investors of Alfinity. For Singh, Twiddles is the first company where he is taking an operational role as a founder, and will also drive growth as the face of the brand.

**Chart a course** 

to clarity!

Data rich, visual reporting with

**Mint Plain Facts** 

Read only on **mint** 

# 'Starlink must resolve issues'

Govt open to offering satellite broadband licence to Musk's firm, but awaits security assurances, says Scindia

Aman Gupta & Gulveen Aulakh **NEW DELHI** 

he government is "happy to give" a licence to Elon Musk's Starlinkas long as it complies with the condi-

tions laid down for offering services in India and addresses security concerns, telecom minister Jyotiraditya Scindia said on Tuesday. "They (Starlink) are in the process

of addressing the (security) concerns, and they have to check all the boxes," Scindia said in a media briefing, noting that the SpaceX-owned satellite broadband provider's application was under process. He did not elaborate on the security concerns the Indian government has raised with Starlink.

Indian telecom firms Reliance Jio Infocomm Ltd and Bharti Airtel Ltd are resisting Starlink's entry into the satellite broadband market, arguing that the US-based company's directto-consumer service will compete with their retail services, distorting the level-playing field. Spectrum allocation for satellite broadband is at the



Scindia's assurance comes amid a spectrum tug-of-war with local telcos.

centre of the ongoing tussle between the two sides. Starlink has sought administrative spectrum allocation, and the Indian carriers have cited 'same service, same rules' as the

benchmark for spectrum allocation. The same service, same rules principle refers to telecom operators and any company providing similar servi-

ces as wireless carriers should be regulated in the same way. The Telecom Regulatory Authority of India (Trai) is working on the method of spectrum allocation for satellite broadband services in the country. Indian operators and Starlink have stated their views, including during an open-house discussion by Trailast week.

 $In\,response\,to\,questions\,on\,grant$ ing waiver on the bank guarantees of ₹27,000 crore sought by Vodafone Idea, Scindia said that any assistance that has to be given will not be company-specific but will be 'sectoral'.

"The sector received a tremendous amount of boost from government in last 2.5 years. We have four players,

which is necessary from a sectoral point of view. The customer must have a choice. All assistance given till now was from a sectoral point of view, except for BSNL."

Scindia said BSNL set up 50,000 radio access networksites for 4G and all 100,000 sites are

2025. Some of the sites would be 5G-enabled by the middle of next year, he added. On relief sought by Vodafone Idea on adjusted gross rev enue (AGR) calculations, he said the Supreme Court verdict "stands as is" and if the Centre were to take a decision, it would be notified in time.

On the question of whether telecom service providers will be asked to remove Chinese equipment from legacy networks, Scindia said security cannot be compromised, and the security checks were there for all networks, but replacement of legacy networks will be "evaluated at a later

time". "At this point of time, the trusted source system is fully in place," he said.

And whether a stand has been taken on the demand of the telecom operators to get a share of revenues from OTT players, the Union minister said that the government will hear the

views of the carriers expected to be up by May or June | through the advisory committee mechanism set up by the minister, but noted that the telecom regulator will take a view on the matter. They've also circulated a consultation paper on the issue," said Scindia.

aman.gupta@htdigital.in For an extended version of this story go to livemint.com

# AI-enabled solutions help Siemens improve margin: Global CTO

Nehal Chaliawala

nehal.chaliawala@livemint.com

ndustrial technology major Siemens will be focusing on delivering artificial intelligence-based solutions to its customers over selling simple components to differentiate itself and enrich its margins, a top executive at the firm said.

The German company, with a revenue of €77.8 billion in fiscal ended September 2023, is also exploring the development of large language modelbased interface for industrial

solutions that will help its cli-ents simplify industrial design and automation, according to Peter Koerte, who is the chief technology officer, chief strategy officer and a board member at Siemens AG.

With these solutions, engineers can give natural language inputs for creating a design of the products instead of manually making designs in computer-aided design (CAD) software, Koerte said. "Think about the time saved, and also the many different variations you can create because of the saved time."

Siemens' recent acquisition of industrial simulation and analysis software maker Altair Engineering will form the | subsidiary in India, is bullish

ing these solutions, he added. "Today, we are

basis of develop-

all fascinated by ChatGPT but show me where has it really transformed industry yet. This is where Siemens comes

into play. We take those mod- | the April-June quarter. This els, and we apply them and put them to productive use, for higher margins from deliver-

energy management, resilient supply chains, whatever it is.' Siemens, which has a listed

has been partly attributed to

The company is also working on developing large language modelbased interface

for industrial solutions year to 11.6% in

ing more AI-enabled solutions than simply selling industrial products and equipment. "In the last three years, since

on the market for we introduced Siemens Xcelthe adoption of its erator, there has been a mar-AI-enabled smart gin expansion. And a large part of that margin expansion is industrial products. The Indian because of providing solutions arm, Siemens Ltd as against providing dumb boxes," Sunil Mathur, manag-ing director and chief execuhas seen its profit margin improve 1.6 percentage tive officer, Siemens Ltd, said. points year-on-

Siemens Xcelerator is a digital business platform that includes a portfolio of software and services to help industries in their digital transformation.

"Almost every single thing that we sell today is somehow connected," Koerte said. "Our customers say, 'You know what, don't send me just the box. Send me the use case. Tell me how much energy I can save. Show me how much pro-

ductivity I can get."

The smart hardware that the company sells collects large volumes of data. The company then uses software including AI to analyze this data to optimize the output of its customers.

For an extended version of the story go to livemint.com

Sh. D. K. Prabhat

**Administrative Officer** 

#### **CENTRAL RAILWAY E-TENDER NOTICE**

OPEN TENDER NOTICE No. DRMWNGP-101-2024-01 OF 08/11/2024 DRMWNGP-101-2024-01 OF 08/11/2024
Name of Work: Proposed supplying and stacking of machine crushed ballast from outside quarry as per revised ballast specification of June 2016 and loading the same into the ballast hoppers by mechanical means at Amla depot under ADEN Amla sub division (QI), 80000M3 (II) Approximate cost: PS 73602400 00 Approximate cost: Rs. 73602400.00 (i) Approximate cost: Rs. 73602400.00 (ii) Earnest Money: Rs. 518000.00 Date & Time of closing of tender: 02/12/2024 15:00 Hrs. Complete details and instructions for e-tendering and on-line participation for the above work is available on Railway's website www.irens.gov.in

ww.ireps.gov.in Divisional Railway Manager (Works) Central Railway, Nagpur



Scan the QR

code to read

#### **Jalgaon City Municipal Corporation** e-Tender Notice No.565 for 2024-25 (Extension No.02)

Jalgaon City Municipal Corporation, Jalgaon invited e-Tender for the work of Jalgaon City Water Supply Project under Centrally Sponsored Amrut 2.0. Tender schedule of above notice is extended up to 12.12.2024. Other conditions will remain same as per published notice on https://mahatenders.gov.in.

Date: 12.11.2024.

(Dyaneshwar Dhere) **Commissioner and Administrator Jalgaon City Municipal Corporation Jalgaon** 

### Delton Cables Limited

Regd. Office: Delton House, 4801, Bharat Ram Road, 24, Daryagunj, New Delhi - 110002 Website: www.deltoncables.com, E-mail: cs@deltoncables.com, CIN: L31300DL1964PLC004255 Statement of Unaudited Financial Results for The Quarter and Half Year Ended September 30, 2024 (Rs. in lakhs)

SI. No.	Particulars	ended 30.09.2024 Unaudited	ended 30.09.2024 Unaudited	ended 30.09.2023 Unaudited			
1	Total income from operations (net)	17,528.92	31,912.63	9,035.68			
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	308.75	723.39	329.67			
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1,338.16	1,752.79	329.52			
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	848.54	1,150.82	333.34			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period	849.29	1,154.57	334.10			
	(after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]						
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)		864.00	864.00			
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of Rs.10/- each)						
	(a) Basic (Rs.)	9.82	13.32	3.86			
	(b) Diluted (Rs.)	9.82	13.32	3.86			
Notes: 1) The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of							

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ half yearly Financial Result are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.delton

The above result have been prepared in accordance with principle and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of Companies Act, 2013.
The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held

For and on behalf of the Board

Vivek Gupta (Managing Director) DIN 00035916

**Greater Noida Industrial Development Authority** Plot No.-01, KP-04, Greater Noida City -201301, G.B. Nagar U.P.

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

Land & Estate Department, MCD, 7th Floor,

Dr. S.P.M., Civic Centre, New Delhi Phone: 011-23225710

PUBLIC NOTICE The General Public is hereby informed that MCD is collecting the

proportionate Ground Rent in respect of the Leased properties in Plot No. A-1 & A-2, A-3 & A-4, B-11, B-3 & B-4 of Ranieet Nagar

Commercial Complex, Delhi from the present occupiers in

pursuance of the Hon'ble High Court order in Case No.WP(C)

In case any person is having any objection, the same may be filed in writing along with supporting documents, addressed to the

undersigned within 15 days from the date of publication of this

notice, failing which, it shall be construed that there is no objection.

9779/2019. The details are attached herewith.

R.O. No.34/DPI/MCD/2024-25

Ref. No. Greater Noida/Hort./2024-25/4508 Date: 08/11/2024 Expression of Interest

GREATER NOIDA AUTHORITY invites Expression of Interest (EOI) from experienced and qualified companies for the Remodelling/Landscaping of "D" Park at Sector Knowledge Park-5 Greater Noida (including Grassing, Plantation, Sculpture, Pathway, Hut, Musical fountain, Lighting, Facade Light, Swings, Open Gym, Garden Benches, Dustbin, Toilet, Water Harvesting, Guard Room Store Room, Boundary wall, Entry & Exit Gate etc.).

Objective:

The purpose of this EOI is to engage companies that have proven expertise in the field of Re-modelling/Landscaping of "D" Park at Sector Knowledge Park-5 Greater Noida.

Eligibility Criteria:

The company should have relevant experience in Landscaping Work Proven technical and financial capacity to implement the projects.

Compliance with environmental and Landscaping.

Submission Guidelines: Interested companies are requested to submit their detailed

proposals, including the following information:

Company Profile: Technical Proposal (methodology, technology, process)

Past experience in similar projects

Project implementation plan

Financial proposal (if applicable)

Contact Person: Mr. Pawan Kumar

Deadline for submission:

Proposals must be submitted by: 15.11.2024

Contact Information:

Proposals should be sent to the Horticulture Department via email at: Email: smhorticulture@gnida.in

Contact Number: +918800300036 For further information or clarifications, interested parties can

contact the Horticulture Department of Greater Noida Authority at the provided contact details. Abhishek Pathak (O.S.D. (Hort.)

Follow Us On @ ( ) ( ) Official GNIDA

voigs

#### NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY Administrative Building, Sector-6, Noida G.B. Nagar,(U.P)

on 12th November, 2024.

te : 12 November, 2024

### **E-TENDER NOTICE**

E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.in & http://etender.up.nic.in. Please ensure to see these website for any changes/amendments & corrigendum etc.

Sr.	Job	Name of Work	Amount	Publishing
No.	Number		Lac	Time
(1)	E/(PH- II)/ET/20	Cleaning and Sweeping of all roads and drain including Care and feeding of Gauvansh, cleaning of sheds and cleaning of entire area in Asthai Gauvansh Ashray Sthal Vill-Nagli Wajidpur, Sec-135, Noida	Rs. 126.88	1st Time

The above tenders can be uploaded from dated 13.11.2024 to 26.11.2023 upto 5.00 PM. Pre-Qualification shall be opened/downloaded on dated 27.11.2024 at 11.00 AM.


नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में शासन से स्वीकृत मास्टर प्लान एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के विपरीत प्लॉटिंग या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह अवैध है। जनसामान्य को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों एवं अवैध निर्मित भवनों में भूखण्डों / अपार्टमेंट / दुकान / गोडाऊन / फार्महाउस की खरीद–फरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाईजर के लुभावने एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचे। साथ ही नौएडा अधिसूचित क्षेत्र के हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में अनधिकृत ∕ अवैध प्लॉट एवं फार्म हाऊसों के कारोबार में संलिप्त भूमाफियाओं के चंगुल में न फंसे।''

Office Sector- 94 CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

General Manager (Public Health) Noida







).	Nomenciature	Nominal (in ₹Crore)	Investors* (in ₹Crore)
1	7.04% GS 2029	14,000	700
2	New GS 2039	13,000	650
3	7.09% GS 2054	10,000	500

Gol will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of India Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)-W&M/2018, dated March 27, 2018.

The auction will be conducted using multiple price method. The auction will be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort. Mumbai on November 14. 2024 (Thursday). The result will be announced on the same day and payment by suc 2024 (Monday). ent by successful bidders will have to be made on November 18,

For further details, please see RBI press release dated November 11, 2024 on the RBI website - (www.rbi.org.in). Attention Retail Investors

(\*PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, **HUFs and Individuals**)

for them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (https://rbiretaildirect.org.in). For more information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank branches and application forms please visit RBI website (www.rbi.org.in) or FIMMDA website (www.fimmda.org).

Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked

Government Stock offers safety, liquidity and attractive returns for long duration. 'Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money

#### खबर संक्षेप

बांगा के जन्मदिन पर निकाली पेडों की बारात



अनोखे प्रयासों से जागरूकता फैलाने वाले 'टी मैन' के नाम से विख्यात विक्टोरा इंडस्ट्रीज के सीएमडी एसएस बांगा ने अपने जन्मदिन पर अनोखा प्रयोग किया पौधारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने कर्मचारियों के साथ पौधों की बारात निकाली। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों में पौधारोपण के लिए उत्साह बनाए रखना है।

# 44 साल बाद मिलेगा ईस्ट इंडिया कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर

कार्यकाल में समस्या

का हल कर दिया है,

नगर निगम की जिस

जमीन पर इनको घर

उनका मालिकाना हक

समस्याओं का भी जल्द

मिल जाएगा। अन्य

समाधान कर दिया

जाएगा ।

बनाकर दिए थे,

हरिभूमि न्यूज>>> फरीदाबाद

भाजपा सरकार के 👫 बल्लभगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मुलचंद शर्मा का धन्यवाद करने के लिए मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ईस्ट इंडिया कॉलोनी के लोग विधायक के कार्यालय पहुंचे। लोगों ने बताया कि पिछले 44 सालों से वो अपने मकानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें अब भाजपा सरकार में सफलता मिली है।

ईस्ट इंडिया कॉलोनी के सैकड़ों लोग इकट्टा होकर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पहुँचे। उनका और भाजपा सरकार का धन्यवाद किया। इस मौके पर विधायक ने लोगों की बातों को सुना और कहा कि भाजपा सरकार के



है, नगर निगम की जिस जमीन पर इनको घर बनाकर दिए थे, उस पर उन्हें मालिकाना हक मिल जाएगा। अन्य समस्याओं का भी जल्द समाधान कर दिया जाएगा।

सेक्टर 22 स्थित ईस्ट इंडिया कॉलोनी की आरडब्ल्यूए के सदस्य और स्थानीय निवासी, कॉलोनी के प्रधान किशन बारी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ के विधायक पं. मूलचंद शर्मा से उनके सेक्टर 8 स्थित कार्यालय में मिले और आरडब्ल्यूए की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री और लगातार तीसरी बार भाजपा की हरियाणा में सरकार बनने पर विधायक को मुख्यमंत्री के नाम एक बधाई पत्र दिया गया।

### नगर निगम ने शुरू की कार्रवाई

कॉलोनी प्रधान बारी ने बताया कि अब भाजपा के शासन काल में कॉलोनी के मकानों के मालिकाना हक के लिए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉलोनी वासियों को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारे विधायक मूलचंद्र शर्मा के प्रयास से कार्य को गति मिलेगी और जल्ब ही निगम द्वारा कॉलोनी वासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिलेगा।

विधायक शर्मा ने आए लोगों को आश्वासन दिया कि सारी औपचारिकताएं पूरी करवाकर कॉलोनी वासियों को उनके मकानों का मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। इसके लिए आरडब्ल्यूए महासचिव मनोज पाठक, दीपक तिवारी, प्रमोद गिल, ॲच्छे लाल मौर्य, रामनाथ प्रसाद हृद्य यादव, मनसा राम यादव, दीपक शर्मा, महेंद्र शेखावत, संतोष, सूरज शर्मा, लाखन, सुभाष, विजय, अशोक शर्मा, बीरबल सिंह, कृष्ण मिश्रा, कुलदीप बिश्नोई, राकेश पटेल, सुशील, श्याम सिंह, अजय पांडे आदि कॉलोनी वासियों ने मुख्यमंत्री और बल्लभगढ विधायक मूलचंद्र शर्मा का आभार व्यक्त किया।

# फरीदाबाद में डेंगू के 128 केस, मलेरिया के 28 मामले सामने आए

टीम घर-घर जाकर लोगों को अवेयर करने के साथ मच्छरों के लावी की जांच भी कर रही

हरिभूमि न्यूज 🕪 फरीदाबाद

फरीदाबाद में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में अभी तक डेंगू के 128 केस और मलेरिया के 28 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति सामान्य है पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू और मलेरिया के मामले कम आए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल की तरफ से रैपिड एक्शन टीम घर-घर जाकर के लोगों को अवेयर करने के साथ-साथ मच्छरों के लावां की जांच भी कर रही है। कहीं पर डेंगू के लार्वा मिलते हैं तो उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है।

# सिविल अस्पताल में रैपिड एक्शन टीम तैनात, लार्वा मिलने पर जुर्माना

अशोक कुमार ने कहा-पिछले साल के मुकाबले इस साल डेंगू-मलेरिया के मामले कम

सिविल सर्जन डॉ. 🕴 समय खत्म हो रहा अगले 10 दिन में आ सकते हैं 5 से 10 ही मामले



सिविल सर्जन ने कहा कि जिले में 4 टीम बनी हुई है, जो अलग-अलग स्तर पर काम कर रही है। निगम प्रशासन से भी टाइप किया हुआ है, जहां पर स्लम एरिया है वहां पर फागिंग करवाई जा रही

है। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति सामान्य है क्योंकि डेंगू और मलेरिया का समय खत्म होने जा रहा है। नवंबर में यह खत्म हो जाते है अब अगले 10 दिन

#### सिविल अस्पताल से दी जाती है प्लेटलेटस

डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि अगर किसीं अस्पताल में कोई डेंगु या मलेरिया का मरीज एडमिट है, जो डेंगू और मलेरिया के जांच रेट सरकार द्वारा निर्धारित है उसी तय रेट पर जांच की जाएगा। अगर किसी को प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ती है तो सिविल अस्पताल से दी जाती है। अगर सिविल अस्पताल में नहीं मिलती तो उन्हें बाहर से अरेंज करके सिविल अस्पताल द्वारा दी जाती है। अगर कोई अस्पताल उसे रेट से ज्यादा पैसे लेता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है।

पुरे इलाके में लगा भीषण जाम, वाहनों की लंबी

# जिला जज का पुतला फूंका

# लाटीचार्ज के विरोध में वकीलों का दूसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन

नोक झोक के बाद वकीलों के खिलाफ दो रिपोर्ट दर्ज

हरिभूमि न्यूज 🕪 गाजियाबाद

गाजियाबाद न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं कर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चल रहा आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। वकीलों ने गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट के सामने हापुड रोड पर अधिवक्ताओं ने जाम लगा दिया और जिला जज का पुतला फूंका। जाम के कारण वहाँ पर लेंबी-लंबी लाइनें लग गई। 29 अक्टबर को गाजियाबाद के जिला न्यायालय में जिला जज और वकीलों के बीच नोक झोक हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने वकीलों को लाठी चार्ज करके भगाया था। इस दौरान अधिवक्ताओं को चोट भी लगी थी। साथ ही इस मामले में वकीलों के खिलाफ दो रिपोर्ट भी दुर्ज कराई गई थी।

स्थान : फरीदाबाद

जिला जज के तबादले व निलंबन की मांग



तभी से वकील हडताल पर हैं। शुक्रवार को 22 जिलों के अधिवक्ताओं की संघर्ष समिति की बैठक गाजियाबाद में हुई थी। जिसमें सोमवार से आंद्रोलन को तेज करने का निर्णय लिया था। जिला जज के तबादले व निलंबन की मांग पूरी न होने तक प्रत्येक दिन जिले में 2 घंटे वकीलों ने जाम लगाने का निर्णय लिया था। इसी क्रम में धरने पर बैठ गए।

#### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

<u>धारा 82 सीआरपीसी देखिए</u> मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त 1. नितिन 2. किशोर दोनों पुत्र स्व. भूप सिंह 3. शुभद्रा उर्फ पिंकी पुत्री स्व. भूप सिंह 4. शिव कामिनी पत्नी स्व. भूप सिंह सभी निवासी ग्राम लाखन माजरा, जिला रोहतक, हरियाणा एवं एकता काँलोनी डबल फाटक के पास, जिला रोहतक, हरियाणा ने case FIR No. 574/2021 U/s 498A/406/34 IPC, थाना बवाना, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त 1. नितिन 2. किशोर 3. शुभद्रा उर्फ पिंकी 4. शिव कामिनी मिल नहीं रहें है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त 1. नितिन 2. किशोर 3. शुभद्रा उर्फ पिंकी 4. शिव कामिनी फरार हो गये है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case FIR No. 574/2021 U/s 498A/406/34 IPC, थाना बवाना, दिल्ली के उक्त अभियुक्त 1. नितिन 2. किशोर 3. शुभद्रा उर्फ पिंकी 4. शिव कामिनी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद / मुकद्मा का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.01.2025 को या

> सुश्री प्रीति न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी उत्तर, महिला कोर्ट-01 कमरा नं. 103, प्रथम तल

DP/14969/ON/2024(Court Matter)

हरियाणा सरकार

रोहिणी कोर्ट. दिल्ली

DP/15002/RD/2024

## डेल्टन केबल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : डेल्टन हाउस, ४८०१, भरत राम रोड, २४, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 ables.com, CIN: L31300DL1964PLC004255 30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही और अर्ध वर्ष हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण ( रू. लाखों में

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2024 अअंकेक्षित	समाप्त अर्ध चर्ष 30.09.2024 अअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30.09.2023 अअंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	17,528.92	31,912.63	9,035.68
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	308.75	723.39	329.67
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	1,338.16	1,752.79	329.52
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	848.54	1,150.82	333.34
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	849.29	1,154.57	334.10
6	इक्विटी शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक के)	864.00	864.00	864.00
7	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (प्रत्यक्ष मृल्य रु. 10 प्रत्येक के) (ए) बेसिक (रु.) (बी) डायल्युटेड (रु.)	9.82 9.82	13.32 13.32	3.86 3.86

अअंकेशित तैमाहिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार है। तैमाहिकाअर्थ वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्तॉक एक्सचेंजेज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कम्पनी की वेबसाइट (www.deltoncables.com) पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत बिनिरिष्ट अनुसार कम्पनी (भारतीय लेखा मानकों) नियमों 2015 के तहत अधिसृचित अनुसार भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के सिद्धांत और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किये गये हैं। उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और 12 नयम्बर 2024 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। कृते व बोर्ड की ओर से

हस्ता∠-विवेक् गुप्ता ( प्रबंध निदेशक

## चोरी के वाहन के पार्ट खरीदने वाला आरोपी काबू

**फरीदाबाद।** अपराध शाखा सेंटल की टीम ने चोरी के वाहन के पार्ट खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जनवरी माह में अशोका इञ्क्लेव पार्ट १ से महेंद्रा पिकअप चोरी हो गई थी। जिस संबंध में आरोपी मौशीम, मुफीद को पुछताछ में बताया कि चोरी की गाडी के पार्ट को नफीश कबाड़ी को बेचकर कार को कटवा दिया। आरोपी नफीश को 11 नवम्बर को सेक्टर-37



जुलाई व शौकीन को अगस्त में गिरफ्तार किया गया, फरीदाबाद से चोरी के वाहन के पार्ट खरीदने के मामले में गिरफ्तार किया है।

#### अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा

धारा 82(2)(ii) CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया नामः निखिल राज उर्फ निरंजन, पुत्रः हीराकांत चौधरी, निवासीः झुग्गी नं एन—116/189, जेजे कैंप बादली, समयपुर, बाहरी उत्तरी दिल्ली ने FIR No.1091/2022 U/s 380/411 IPC के तहत एक मामला थाना केएनके मार्ग, दिल्ली में दर्ज किया गया है किया है (या किए जाने का संदेह है) और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि अभियुक्त निखिल राज उर्फ निरंजन नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि आरोपी निखिल राज उर्फ निरंजन फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है), इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि अभियुक्त निखिल राज उर्फ निरंजन से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 17.12.2024 सुबह 10.00 बजे को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार

हिमांशु सहलोथ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-03, उत्तरी जिला, कमरा नं. 213, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

## १६ नवंबर को मुख्यमंत्री योगी गाजियाबाद में करेंगे रोड शो

**गाजियाबाद।** आगामी 16 नवंबर को मुख्यमंत्री योर्ग आदित्यनाथ गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा के लिए रोड शो कर वोट मांगेंगे। पूर्व महापौर और चुनाव के संयोजक आधु वर्मों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री याँगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजीव शम

के चुनाव प्रचार में क्षेत्र की जनता से अपील करने हेतू 16 नवंबर को शाम 4 बजे रोड शो में मिल होंगे। कार्यक्रम की पुष्टि हो चुकी है। प्रस्तावित रूट के अंनुसार शॉम 4 बजे विजय नगर चाणव्य चौक से मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो का शुभारम्भ करते हुए डीएवी स्कूल प्रताप विहार पर समापन करेंगे।

FLICK

#### फ्रिक इंडिया लिमिटेड

CIN: L74899HR1962PLC002618

पंजीकृत कार्यालयः २१.५ किलोमीटर, मेन मथुरा रोड, फरीदाबाद, १२१००३ टेलीफोन नंबर 01292275691—94 ईमेलः fbd@frickmail.com वेबसाइटः www.frickweb.com

30.09.2024 को समाप्त तिमाही और छह महीने के लिए असंपरीक्षित वित्तीय परिणाम

क्र.	विवरण	f	तेमाही समाप	त	छह मही	ने समाप्त	वर्ष समाप्त
₹.					30.09.2024 अलेखापरीक्षित		
	राजस्व						
1	परिचालन से राजस्व	8,642.48	8,974.46	10,314.67	17,616.94	20,745.63	48,128.91
II	अन्य आय	342.51	350.87	319.05	693.38	580.90	1,239.84
III IV	कुल आय (I+II) व्यय	8,984.99	9,325.33	10,633.72	18,310.32	21,326.53	49,368.75
	उपभोग की गई सामग्री की लागत तैयार माल की सूची नें परिवर्तन,	6,060.51	6,989.56	7,363.71	13,050.07	15,098.71	32,654.48
	कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	(285.15)	(988.73)	(203.90)	(1,273.88)	(961.31)	980.88
	कर्मचारी लाभ व्यय	1,486.73	1,484.90	1,411.62	2,971.63	2,765.57	5,989.70
	वित्त लागत	52.63	62.95	84.70	115.58	175.95	325.86
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	64.46	59.40	55.38	123.85	106.52	238.39
	अन्य व्यय	814.79	849.86	834.85	1,664.65	1,610.09	3,886.73
	कुल व्यय (IV)	8,193.97	8,457.94	9,546.36	16,651.90	18,795.53	44,076.04
٧	कर से पहले लाभ (III-IV)	791.02	867.39	1,087.36	1,658.42	2,531.00	5,292.71
VI	कर व्यय			- 100 - 100	(0)	0.500	100
	क) चालू कर	226.90	196.30	287.85	423.20	651.17	1,339.40
	ख) स्थगित कर	29.28	2.45	3.30	31.73	(13.14)	(22.91)
	ग) पिछले वर्षों के लिए आयकर	_	_	_	_	_	(256.13)
	कुल कर (VI)	256.18	198.75	291.15	454.93	638.03	1,060.36
VII	अवधि के लिए कर के बाद लाम (V-VI)	534.84	668.64	796.21	1,203.49	1,892.97	4,232.35
VIII	अन्य व्यापक आय (करों के बाद शुद्ध) (ए) (I) आइटम जिन्हें पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			700 NO.	00000 4000	70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 2000000
	लाभ या हानिः	(4.00)	(4.01)	(7.61)	(8.01)	(15.22)	(16.03)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाम या		TO A STATE OF		200222	100.000.0000	NO03
	हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः (बी)(I) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत	1.01	1.01	1.92	2.02	3.83	4.03
	किया जाएगाः (ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या	-	-	-	-	-	1 -
	हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगाः	8-	1_0	-	_	_	= =
	कुल अन्य व्यापक आय (VIII)	(2.99)	(3.00)	(5.69)	(5.99)	(11.39)	(12.00)
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)	531.85	665.64	790.52	1,197.50	1,881.58	4,220.35
X	अन्य इक्विटी	50007000	900000000	1046-1001.0		MATERIA (1975)	27,311.77
XI	पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल						(PP) (100-111290)
	(प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 / — रुपये)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रुपये / शेयर)	4393630	10505384	(80)(00)(70)	1854031030000	70325876	21,290,2014
	क) बेसिक ईपीएस — वार्षिकीकृत नहीं	89.16	111.43	132.71	200.59	315.52	705.42
	ख) डाइलूटेड ईपीएस – वार्षिकीकृत नहीं	89.16	111.43	132.71	200.59	315.52	705.42

क्षि। लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई तथा 12.11.2024 को आयोजित अपनी अनुमोदित कर रिकॉर्ड में लिया गया तथा कंपनी के वैघानिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी सीमित समीक्षा की गई।

कंपनी मुख्य रूप से औद्योगिक प्रशीतन और वातानुकूलन प्रणालियों के निर्माण, आपूर्ति और निष्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। चूंकि इन गतिविधियों की मूल प्रकृति जोखिम और रिटर्न के एक ही सेट द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए, इंड एएस – 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट" व अनुसार इसमें केवल एक रिपोर्ट योग्य सेगमेंट है।

शेयरधारकों ने 17 सितंबर 2024 को डाक मतपत्र के जरिए कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹300.00 लाख (प्रत्येक ₹10 के 30,00,000 इविचटी शेयरों में विभाजित से ₹ 2,000.00 लाख तक (प्रत्येक ₹ 10 के 2,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित) बढ़ाने को मंजूरी दी है और 9:1 के अनुपात में जनरल रिजर्व के पूंजीकरण के जरिए बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दी है। तदनुसार, 4 अक्टूबर 2024 को कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी में पूर्णतः चुकता कुल 5,99,975 इक्विटी शेयरों के बदले ₹10 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 53,99,775 इक्विटी शेयर आवंटित किए और निर्गम के बाद, कंपनी की निर्गमित, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी ₹599.98 लाख ( ₹10 प्रत्येक के 59,99,750 इक्विटी शेयरों में विभाजित) है।

निविदा सुचना

पीआरडीएच-11/2025/260/30248/1/88/7 दि. 12.11.24

पिछली अवधियों / वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

बोर्ड की ओर से फ्रिक इंडिया लिमिटेड हस्ता./-

दिनांक : 12.11.2024 स्थान : दिल्ली

जसमोहन सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

e receive the second						
. विभाग का	कार्य सूचना निविदा का नाम	खुलने की तिथि	राशि/ईएमडी	विभाग	नोडल अधिकारी /	
नाम	**/	बंद होने की तिथि	(लगभग) रु. में	की वेबसाइट	सम्पर्क विवरण/ई-मेल	
		12.11.2024	04.15	https://etenders.hry.nic.in	0171-2630877	
		18.11.2024	लाख	9703	pwd-eeed-ambala@hry.nic.in	
लोनिवि भ व प		12.11.2024	6.22	https://etenders.hry.nic.in	1662225133	
हिसार		18.11.2024	लाख	520 ANNE.	pwd-eemd-hissar@hry.nic.in	
पंचायती राज	एमपी - गांव मोखरा खास में जांगड़ा चौपाल का निर्माण + 1 कार्य।	05.11.2024	65.49	https://etenders.hry.nic.in	1262254150	
रोहतक		25.11.2024	लाख		prexeeng.roh@hry.nic.in	
महानिदेशक आपूर्ति एवं	स्टोर का वर्णन :- क्र. सं. 1 से 100 तक मदें निहित सूची (100 मदों का सिंगल लॉट)।	12.11.2024		https://etenders.hry.nic.in	0172-2570122	
निपटान हरियाणा		11.12.2024		dsndharyana.gov.in	Supplies@hry.nic.in	
पंचायती राज	डी प्लान – गांव मस्तपुर ब्लॉक अम्बाला–1 में सामुदायिक केन्द्र को पूरा करना।	08.11.2024	19.62	https://etenders.hry.nic.in	0171-2551368	
अम्बाला		15.11.2024	लाख		prexeeng.amb@hry.nic.in	
	राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।	12.11.2024	1530	https://etenders.hry.nic.in	1722710371	
हरियाणा चण्डीगढ़		10.12.2024	करोड़	https://hartrans.gov.in	dtcpndhr@gmail.com	
पंचायती राज	गांव चिड़ाना ब्लॉक मुंडलाना में रूप वाला तालाब की आर/वॉल का निर्माण डी प्लान 2024-25	बंद होने की तिथि	25.66	https://etenders.hry.nic.in	8168237223	
सोनीपत	+ 2 कार्य।	18.11.2024	लाख		sachin.sdopr@gmail.com	
पंचायती राज		11.11.2024	152.93	https://etenders.hry.nic.in	0129-4313645	
फरीदाबाद	एचजीवीवाई केके + 4 कार्य।	18.11.2024	लाख		prexeeng.fbd@hry.nic.in	
	एलटी आमौर्ड पीवीसी एल्यूमीनियम केबल + 1 अन्य कार्य।	बंद होने की तिथि	8.47	https://etenders.hry.nic.in	9812364411	
विभाग हरियाणा, भिवानी		18.11.2024	लाख		xenmechbhiwani@gmail.com	
पंचायती राज	लाडवा - हिसार-1 में सुल्तानपुर रोड से आरसीसी रोड तक सीवरेज वाटर नाला का निर्माण	11.11.2024	138.78	https://etenders.hry.nic.in	9466629211	
हिसार	(डी-प्लान) + 21 कार्य।	25.11.2024	लाख		prexeeng.hsr@hry.nic.in	
पंचायती राज	97.67 - गांव मदाना खुर्द ब्लॉक बेरी में 4 अदद फील्ड रास्ता का निर्माण।	08.11.2024	82.07	https://etenders.hry.nic.in	9416721433	
झज्जर	10 ASS/10 101	13.11.2024	लाख	200.0	prexeeng.jjr@hry.nic.in	
पंचायती राज	गांव मदाना खुर्द, ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण।	11.11.2024	33.96	https://etenders.hry.nic.in	9416721433	
झज्जर	1000 pd	19.11.2024	लाख	0.000	prexeeng.jjr@hry.nic.in	
सिंचाई एवं जल संसाधन	काहनौर डिस्टी. के आरडी 51040 पर चांदी विश्राम गृह की विशेष मरम्मत + 5 कार्य।	बंद होने की तिथि	18.17	https://etenders.hry.nic.in	9812111077	
विभाग हरियाणा, रोहतक	W .	18.11.2024	लाख	91 0397	xenwsdnrtk@gmail.com	
	ाम लोनिवि भ व प अम्बाला केंट लोनिवि भ व प हिसार पंचायती राज रोहतक महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा पंचायती राज अम्बाला राज्य परिवहन निदेशालय हरियाणा चण्डीगढ़ पंचायती राज सोनीपत पंचायती राज फरीदाबाद सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, भिवानी पंचायती राज हहसार पंचायती राज इज्जर 2 पंचायती राज झजर 2 संचायती राज झजर 2 संचाई एवं जल संसाधन	नाम   लॉनिवि भ व प   अम्बाला जिले में आरसीएस स्कीम के तहत फ्लाइट ऑप्रेशंस को प्रारम्भ करने के लिए अम्बाला में सिविल इंक्लेव की स्थापना (डेकोरेटिव लाइट्स के लिए पावर मैनेजमेंट यूनिट का प्रावधान)। लोनिवि भ व प   नगर निगम, हिसार में उपयोग हेतु 03 अदद जल टैंकरों का फैब्रिकेशन (सामग्री की अधिप्राप्ति/आपूर्ति)। पंचायती राज   रातेष मोखरा खास में जांगड़ा चौपाल का निर्माण + 1 कार्य। रोहतक   महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा   पंचायती राज   उत्तरे का वर्णन :- क्र. सं. 1 से 100 तक मदें निहित सूची (100 मदों का सिंगल लॉट)।   जम्बाला   राज्य परिवहन हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।   राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।   राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।   राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।   राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।   राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा।   राज्य चिवाना ब्लॉक बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में आईपीबी सहित रास्ता की पेवमेंट, एचजीवीवाई के के + 4 कार्य।   एलटी आमौर्ड पीवीसी एल्यूमीनियम केबल + 1 अन्य कार्य।   एलटी आमौर्ड पीवीसी एल्यूमीनियम केबल + 1 अन्य कार्य।   पंचायती राज   लाडवा - हिसार-1 में सुल्तानपुर रोड से आरसीसी रोड तक सीवरेज वाटर नाला का निर्माण   हिसार (डी-प्लान) + 21 कार्य।   पंचायती राज   इज्जर   प्रार्व मदाना खुर्द ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण।   इज्जर   गांव मदाना खुर्द, ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण।   इज्जर   गांव मदाना खुर्द, ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण।   इज्जर   गांव मदाना खुर्द, ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण।   इज्जर   गांव मदाना खुर्द, ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण।   उत्तर की विशेष मरम्मत + 5 कार्य।	नाम   विष् होने की तिथि   लिंकिय म व प अम्बाला जिले में आरसीएस स्कीम के तहत फ्लाइट ऑप्रेशंस को प्रारम्भ करने के लिए अम्बाला   12.11.2024   18.11.	ानाम अन्याता जिले में आरसीएस स्कीम के तहत फ्लाइट ऑग्नेशंस को प्रारम्भ करने के लिए अम्बाला वित्ते से सिविल इंक्लेव की स्थापना (डेकोरेटिव लाइट्स के लिए पावर मैंनेजमेंट यूनिट का प्रावधान)। 18.11.2024 लाख वित्ते प्रचायती राज प्रमान, हिसार में उपयोग हेतु 03 अदद जल टैंकरों का फैब्रिकेशन 12.11.2024 ताख वित्ते प्रचायती राज एमपी - गांव मोखरा खास में जांगड़ा चौपाल का निर्माण + 1 कार्य। 05.11.2024 ताख वित्ते के स्थापना (डेकोरेटिव लाइट्स के लिए पावर मैंनेजमेंट यूनिट का प्रावधान)। 18.11.2024 लाख वित्ते का अप्रात्ते राज एमपी - गांव मोखरा खास में जांगड़ा चौपाल का निर्माण + 1 कार्य। 05.11.2024 वित्ते ताख वित्ते का वर्णन :- क्र. सं. 1 से 100 तक मदें निहित सूची (100 मदों का सिंगल लाँट)। 12.11.2024 वाख वित्ते का स्वात्ते राज डी प्लान - गांव मरतपुर ब्लॉक अम्बाला- 1 में सामुदायिक केन्द्र को पूरा करना। 08.11.2024 वाख वाख रियाणा चण्डीनह परिवाणा चण्डीनह पर्वात का अम्बाला- 1 में सामुदायिक केन्द्र को पूरा करना। 12.11.2024 करोड़ वाख परिवहन निदेशालय राज्य परिवहन, हरियाणा में एचएसडी की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदा। 12.11.2024 करोड़ वेदानी राज गांव चिड़ाना ब्लॉक मुंडलाना में रूप बाला तालाब की आर/बॉल का निर्माण डी प्लान 2024-25 वंद होने की तिथि 25.66 लाख परीवाबाद पंचायती राज गांव कैनसा, ब्लॉक बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में आईपीबी सहित रास्ता की पेवमेंट, एचजीवीवाई केके + 4 कार्य। 18.11.2024 लाख परीवाबती राज पांव कैनसा, ब्लॉक बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद में आईपीबी सहित रास्ता की पेवमेंट, एचजीवीवाई केके + 4 कार्य। 18.11.2024 लाख परीवाबती राज लाडवा - हिसार-1 में सुल्लानपुर रोड से आरसीसी रोड तक सीवरेज वाटर नाला का निर्माण 11.11.2024 लाख परीवाती राज लाडवा - हिसार-1 में सुल्लानपुर रोड से आरसीसी रोड तक सीवरेज वाटर नाला का निर्माण 11.11.2024 लाख (डी-प्लान) + 21 कार्य। 13.11.2024 लाख (डी-प्लान) + 21 कार्य। खुर्ट ब्लॉक बेरी में 4 अदद फील्ड रास्ता का निर्माण। 11.11.2024 लाख (डी-प्लान) + 21 कार्य। खुर्ट ब्लॉक बेरी में व्यायामशाला का निर्माण। 11.11.2024 लाख (डी-प्लान) सहनेर डिस्टी. के आरडी 51040 पर चांदी विक्राम म	ानाम अन्याला जिले में आरसीएस स्कीम के तहत फ्लाइट ऑग्निश्च को प्रारम्भ करने के लिए अम्याला विशेष विश्व अम्बाला जिले में आरसीएस स्कीम के तहत फ्लाइट ऑग्निश्च को प्रारम्भ करने के लिए अम्याला विश्व विश्व के स्थापना (डेकोरेटिव लाइट्स के लिए पावर मैंनेअमेंट यूनिट का प्रावधान) । 18.11.2024 लाख तेमिवि भ व प में सिविल इंक्लेव की स्थापना (डेकोरेटिव लाइट्स के लिए पावर मैंनेअमेंट यूनिट का प्रावधान) । 18.11.2024 लाख तेमिवि भ व प मार निगम, हिसार में उपयोग हेतु 03 अवद जल टैंकरों का फैब्रिकेशन 12.11.2024 ते 62.2 https://elenders.hry.nic.in रिसार (सामग्री की ऑप्राप्तिः आपूर्ति) । 18.11.2024 लाख 18.11.2024 लाख 18.11.2024 लाख 17.11.2024 हो 65.49 हो 18.11.2024 लाख 17.11.2024 हो 65.49 हो 18.11.2024 लाख 17.11.2024 हो 18.11.2024 लाख 17.11.2024 हो 18.11.2024 हो 18.11.2024 लाख 17.11.2024 हो 18.11.2024 हो 18.11.202	

अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.etenders.hry.nic.in